



नकली शराब तैयार करने के ठिकानों पर एक्साइज की छापेमारी

Publish Date: Mon, 12 Aug 2019 12:02 AM (IST)

नकली शराब तैयार करने के ठिकानों पर एक्साइज की टीम ने रेड की।

जेएनएन, पटियाला : बनूड पुलिस की नाक तले चल रहे ढाबों की आड़ नकली शराब तैयार करने के ठिकानों पर एक्साइज की टीम ने रेड की। रेड के दौरान भारी मात्रा में नकली शराब तैयार करने का तरल बरामद किया गया है। मामले के संबंध में पुलिस ने 12 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया है, जिनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया है। चार अभी फरार हैं, जबकि मामले में तीन व्यक्ति अज्ञात शामिल हैं।

मामले के आड़ओ गुरजंट सिंह एएसआइ एक्साइज ने बताया कि बनूड जीरकपुर रोड पर स्थित वार्ड नंबर दो बस्सी ईसे खां में पटियाला ढाबा के मालिकों ने गोदाम बनाया हुआ था, जिसमें 71 ड्रम बरामद हुए हैं। इनमें 24 ड्रम में स्पिरिट और 47 ड्रम में केमिकल भरा हुआ था। बरामद हुए तरल से नकली शराब तैयार की जाती है, जबकि बनूड तेपला रोड पर झिलमिल ढाबा पर रेड की गई है। झिलमिल ढाबे से चार ड्रम केमिकल और स्पिरिट के बरामद हुए हैं। बराबद हुई तरल के सैंपल जांच के लिए फरासिक लेबोरेटरी खरड़ भेजा जाएगा।

देर रात से चला सर्च ऑपरेशन

नकली शराब तैयार करने के ठिकानों पर एक्साइज की टीम ने देर रात से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जानकारी के अनुसार टीम ने पहले पटियाला ढाबे पर रेड की। पटियाला ढाबे का गोदाम बनूड के वार्ड नंबर दो में स्थित गांव बस्सी ईसेखां में बनाया हुआ था। मेन हाईवे पर यह गोदाम थाना बनूड से महिज करीब दो किलोमीटर की दूरी पर है। जहां नकली शराब तैयार किए जाने का काला धंधा किया जा रहा था। पुलिस को ढाबे के गोदाम हो रहे इस धंधे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पटियाला ढाबे के गोदाम पर रेड करने के बाद टीम एक पार्टी ने तेपला रोड पर स्थित झिलमिल ढाबे पर रेड की। आईओ गुरजंट सिंह ने बताया कि आरोपितों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है।

राजपुरा में हुई रेड से मिला सुराग

कल एक्साइज की टीम ने राजपुरा में रेड की थी। जहां से नकली शराब तैयार करने का जखीरा बरामद हुआ था। राजपुरा से पकड़े लोगों से ही बनूड एरिया में चल रहे नकली शराब तैयार करने के धंधे का सुराग अधिकारियों को मिला था। टीम ने पूरी मुश्तैदी से बगैर किसी राजनीतिक दबाव से सर्च ऑपरेशन चलाया।

तार के जरिये बोतलों पर लगाई जाती थी सील

एक्साइज टीम के अधिकारियों ने बताया कि गोदाम नकली शराब तैयार करने के बाद बोतलों में भरी जाती थी। और बारीक तार और मशीन के जरिए बोतल को सील लगाई जाती थी। इस गडाउन का मेन गेट आम तौर पर बंद ही रहता था।

पांच को किया गिरफ्तार

एसएचओ बनूड गुरमुख सिंह ने बताया कि पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनमें पटियाला ढाबा के मालिक जगतार सिंह पुत्र बचन सिंह गांव सेखन माजरा ,प्रदीप सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह गांव खानपुर, जगदीप सिंह पुत्र लेट रघबीर सिंह गांव सेखन माजरा, कुलदीप सिंह पुत्र उजागर सिंह गांव बुढनपुर और झिलमिल ढाबा के मालिक संगत सिंह पुत्र लेट जोगिंदर सिंह गांव जंगपुरा को गिरफ्तार किया जा चुका है।

एसएचओ ने बताया कि दविंदर सिंह अमरजीत सिंह गांव रामनगर, परमजीत सिंह उर्फ गोगी पुत्र संगत सिंह गांव जंगपुरा और गांव बुढनपुर का सरपंच जगदीप सिंह अभी फरार है। मामले में तीन अज्ञात व्यक्ति भी शामिल हैं।

किसी भी व्यक्ति को बखशा नहीं जाएगा

हमारी टीम ने बिना पॉलिटिकल अंडर प्रैशर मुश्तैदी से काम किया है। किसी भी व्यक्ति को बखशा नहीं जाएगा। रेड के दौरान लेबल होलोग्राम,खाली बोतले, बरामद हुई है। इसके ईलावा एक महिदरा पिकअप नंबर पीबी 022 सीसी 7698 और इंडिका विस्टा कार नंबर पीबी01ए 6810 मिली है। जिन में तरल भरा हुआ था। आरोपितों के खिलाफ धारा 420, 468, 471 आईपीसी और एक्साइज एक्ट के मामला दर्ज किया गया है।

-गुरचैन सिंह, एएसआइजी, एक्साइज

Posted By: Jagran

Source: <https://www.jagran.com/punjab/patiala-excise-team-raid-in-wine-factory-19482056.html>